



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 माघ 1946 (श10)

(सं० पटना 94) पटना, बृहस्पतिवार, 6 फरवरी 2025

वित्त विभाग

अधिसूचना

4 फरवरी 2025

सं० 1/स्था०(ले०से०)-23/2023/1278 वि०—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को उपायुक्त एवं समकक्ष स्तर में उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है—

| क्र. | पदाधिकारी का नाम | गृह जिला | मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2024 के अनुसार) | वर्तमान कोटि |
|------|------------------|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री अमरेश कुमार | अररिया | 66 | वरीय कोषागार पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर |

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उपायुक्त एवं समकक्ष स्तर (विहित वेतनमान वेतन स्तर-12) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपरोक्त पदाधिकारी के अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार हेतु आवश्यक अर्हता नहीं होने का तथ्य भविष्य में परिलक्षित होने पर उक्त पदाधिकारी को उच्चतर पद पर दी गई अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार के आदेश को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से वापस लिया जा सकेगा।

5. पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उपायुक्त एवं समकक्ष स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम चन्द्र मंडल,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 94-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>